



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1323]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2005/अग्रहायण 29, 1927

No. 1323]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2005/AGRAHAYANA 29, 1927

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

( सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2005

**का.आ. 1782(अ).—**केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (i) के अधीन जारी भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 1465 (अ) तारीख 06 अक्टूबर 2005, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-76 पर 57.000 कि.मी. से 86.000 कि.मी. तक के भूखण्ड का संनिर्माण करने (चार-लेन बनाने) के लोक प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार 'राजस्थान पत्रिका' और 'दैनिक भास्कर' दोनों में तारीख 28 अक्टूबर 2005 को प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम अधिकारी को उक्त भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना है ;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी वित्तीयगणों से मुक्त आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होगी ।

## अनुसूची

राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के 57.000 कि.मी. से 86.000 कि.मी. तक के भूखण्ड का निर्माण करने (चार-लेन बनाने) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि

तहसील: गोगुन्दा

जिला: उदयपुर

| क्रम संख्या | ग्राम का नाम | सर्वे/खसरा नम्बर | भूमि का प्रकार | अर्जन की जाने वाली भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में | भूस्वामी का नाम   |
|-------------|--------------|------------------|----------------|---|---|
| 1           | 2            | 3                | 4              | 5   | 6   |
| 1           | जेलानी       | 52               | बीड़           | 0.5200  | श्री रामसिंह, फतहसिंह, प्रतापसिंह, स्वरूपसिंह पिता केशरसिंह रताबाई बेवा केशरसिंह राजपूत |
|             |              | 55               | खा. II         | 0.1350  | श्री रामसिंह, फतहसिंह, प्रतापसिंह, स्वरूपसिंह पिता केशरसिंह रताबाई बेवा केशरसिंह राजपूत |
|             |              | 286              | खा. I          | 0.0200  | श्री चिमनासिंह पिता रूपसिंह राजपूत  |
|             |              | 287              | चा. II         | 0.2000  | श्री किशनसिंह पिता लालसिंह राजपूत   |
|             |              | 288              | चा. II         | 0.0650  | श्री चिमनासिंह पिता रूपसिंह राजपूत  |
|             |              | 298              | खा. I          | 0.1000  | श्री किशनसिंह पिता लालसिंह राजपूत   |
|             |              | 304              | चा. I          | 0.0450  | श्री अनाइसिंह, सोहनसिंह, जगनाथसिंह वंदनासिंह, फतहसिंह, धनेसिंह पिता वगतसिंह राजपूत      |
|             |              | 306              | चा. I          | 0.0400  | श्री अनाइसिंह, सोहनसिंह, जगनाथसिंह वंदनासिंह, फतहसिंह, धनेसिंह पिता वगतसिंह राजपूत      |
|             |              | 319              | खा. II         | 0.1200  | श्री पनीबाई बेवा मोड़सिंह 1/3 डुंगरसिंह जालमसिंह पिता हीरसिंह 2/3 राजपूत                |
|             |              | 320              | खा. II         | 0.1300  | श्री पनीबाई बेवा मोड़सिंह 1/3 डुंगरसिंह जालमसिंह पिता हीरसिंह 2/3 राजपूत                |
|             |              | 410              | खा. II         | 0.1050  | श्री पेमली बेवा काल्या गुलाब वगता सूरता पिता काल्या 1/2 खमाण पिता चोखा 1/2 भील          |
|             |              | 412              | खा. I          | 0.1300  | श्री पनीबाई बेवा मोड़सिंह 1/3 डुंगरसिंह जालमसिंह पिता हीरसिंह 2/3 राजपूत                |
|             |              | 413              | खा. I          | 0.1250  | श्री पनीबाई बेवा मोड़सिंह 1/3 डुंगरसिंह जालमसिंह पिता हीरसिंह 2/3 राजपूत                |
|             |              | 419              | खा. I          | 0.0200  | श्री पनीबाई बेवा मोड़सिंह 1/3 डुंगरसिंह जालमसिंह पिता हीरसिंह 2/3 राजपूत                |
|             |              | 421              | बीड़           | 0.0050  | श्री पनीबाई बेवा मोड़सिंह 1/3 डुंगरसिंह जालमसिंह पिता हीरसिंह 2/3 राजपूत                |
|             |              | 422              | बीड़           | 0.0150  | श्री पनीबाई बेवा मोड़सिंह 1/3 डुंगरसिंह जालमसिंह पिता हीरसिंह 2/3 राजपूत                |
|             |              | 423              | बा. I          | 0.0150  | श्री सोहन पिता भेरा भील   |
|             |              | 440              | चा. III        | 0.0350  | श्री खेमला पिता मोती भील  |
|             |              | 441              | बीड़           | 0.0200  | श्री खेमला पिता मोती भील  |

| 1 | 2 | 3         | 4              | 5      | 6   |
|---|---|-----------|----------------|--------|---|
|   |   | 442       | बीड़           | 0.0350 | श्री खेमला पिता मोती भील  |
|   |   | 443       | बीड़           | 0.0400 | श्री सोहन पिता भेरा भील   |
|   |   | 445       | बीड़           | 0.0200 | श्री खेमला पिता मोती भील  |
|   |   | 447       | खा. II         | 0.0750 | श्री काल्या पिता मोती भील   |
|   |   | 448       | खा. II         | 0.0500 | श्री खेमला पिता मोती भील  |
|   |   | 451       | खा. II         | 0.0450 | श्री गुमानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत   |
|   |   | 454       | खा. II, बीड़   | 0.0500 | श्री जवानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत  |
|   |   | 470       | चा. I, जा. I   | 0.0050 | श्री जवानसिंह पिता देवीसिंह राजपूत  |
|   |   | 479       | खा. II         | 0.1100 | श्री नाना नोजा केशा पिता भेरा भील   |
|   |   | 484       | खा. II         | 0.0600 | श्री नाना नोजा केशा पिता भेरा भील   |
|   |   | 493       | चा. II         | 0.0050 | श्री काल्या पिता मोती भील   |
|   |   | 494       | बा. I          | 0.0250 | श्री खेमला पिता मोती भील  |
|   |   | 497       | बीड़           | 0.1650 | श्री गुमानसिंह, जवानसिंह पिता देवीसिंह 2/3 हि.<br>ब. हीरसिंह किशनसिंह पिता प्रतापसिंह 1/3<br>राजपूत |
|   |   | 498       | बीड़           | 0.1800 | श्री पेमली बेवा काल्या गुलाब वगता सूरता पिता<br>काल्या 1/2 खमाण पिता चोखा 1/2 भील                   |
|   |   | 499       | बा. I          | 0.0450 | श्री पेमली बेवा काल्या गुलाब वगता सूरता पिता<br>काल्या 1/2 खमाण पिता चोखा 1/2 भील                   |
|   |   | 500       | बीड़           | 0.0150 | श्री सोहन पिता भेरा भील   |
|   |   | 501       | बीड़           | 0.0650 | श्री सोहन पिता भेरा भील   |
|   |   | 510       | बीड़           | 0.0050 | श्री गुमानसिंह, जवानसिंह पिता देवीसिंह 2/3 हि.<br>ब. हीरसिंह किशनसिंह पिता प्रतापसिंह 1/3<br>राजपूत |
|   |   | 660/628   | बीड़           | 0.1400 | श्री सोहन पिता वगतसिंह राजपूत   |
|   |   | 50        | बीड़           | 0.0600 | बिलानाम सरकार   |
|   |   | 56        | रास्ता         | 0.0500 | बिलानाम सरकार   |
|   |   | 485       | बा. I          | 0.0250 | बिलानाम सरकार   |
|   |   | 488       | बीड़           | 0.0250 | बिलानाम सरकार   |
|   |   | 51        | सड़क           | 0.2750 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ, उदयपुर   |
|   |   | 46        | बीड़           | 0.0150 | श्री रायसिंह पिता शंभूसिंह राव सा. दावमादड़ा  |
|   |   | 260       | चा. II, जा. II | 0.0500 | श्री किशनसिंह पिता लालसिंह राजपूत   |
|   |   | 335       | चा. II, जा. II | 0.0350 | श्री देवा पिता पैमा भील   |
|   |   | 512       | बीड़           | 0.0100 | श्री काल्या पिता मोती भील   |
|   |   | 513       | आ.चा.          | 0.0050 | श्री काल्या खेमला पिता मोती भील   |
|   |   | 514       | बा. I          | 0.0300 | श्री खेमला पिता मोती भील  |
|   |   | 515       | बीड़           | 0.0600 | श्री काल्या खेमला पिता मोती भील   |
|   |   | 715/628/1 | बीड़           | 0.2300 | श्री सोहनसिंह पिता वगतसिंह, कालीबाई पति<br>सोहन सिंह राजपूत गै. खातेदार                             |

| 1 | 2        | 3       | 4                | 5      | 6  |
|---|----------|---------|------------------|--------|--|
|   |          | 712/657 | बीड़             | 0.0850 | श्री भैरुसिंह पिता अनाइसिंह, लुगाकुवर पति भैरुसिंह राजपूत गै. खातेदार  |
|   |          | 36      | बीड़             | 0.0700 | विलानाम सरकार  |
|   |          | 679/628 | बीड़             | 0.4350 | विलानाम सरकार  |
| 2 | चक जालार | 86      | बीड़             | 0.1100 | श्री वगतावरसिंह पिता नवलसिंह राजपूत  |
|   |          | 89      | बा.।             | 0.1000 | श्री तख्ता कालू पिता राजू बलाई   |
|   |          | 90      | खा.।।            | 0.0700 | श्री वरदा पिता अदिग बलाई   |
|   |          | 92      | खा.।             | 0.0300 | श्री वगतावरसिंह पिता नवलसिंह राजपूत  |
|   |          | 93      | खा.।             | 0.0200 | श्री भवरसिंह, मोहनसिंह, माधुसिंह पिता केशरसिंह, गजराबाई बेवा केशरसिंह राजपूत   |
|   |          | 94      | खा.।             | 0.0150 | श्री वागसिंह पिता नवलसिंह राजपूत   |
|   |          | 97      | बीड़             | 0.0300 | श्री भवरसिंह, मोहनसिंह, माधुसिंह पिता केशरसिंह, गजराबाई बेवा केशरसिंह 1/3 वागसिंह पिता नवलसिंह 2/3 राजपूत                                |
|   |          | 124     | बीड़             | 0.0550 | श्री तगता पिता राजा 1/4 राजीया वरदीया पिता अदिग 3/4 बलाई   |
|   |          | 125     | बीड़             | 0.0700 | श्री तगता पिता राजा 1/4 राजीया वरदीया पिता अदिग 3/4 बलाई   |
|   |          | 131     | बीड़             | 0.2300 | श्री भवरसिंह, मोहनसिंह, माधुसिंह पिता केशरसिंह, गजराबाई बेवा केशरसिंह राजपूत   |
|   |          | 87      | बीड़             | 0.0500 | श्री वगतावरसिंह पिता नवलसिंह राजपूत  |
|   |          | 126     | रास्ता           | 0.0300 | श्री तगता पिता राजा 1/4 राजीया वरदीया पिता अदिग 3/4 बलाई   |
|   |          | 81      | सड़क             | 0.0400 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ, उदयपुर  |
|   |          | 82      | बीड़             | 0.0400 | श्री तख्ता कालू पिता राज्या बलाई   |
|   |          | 95      | खा.।।            | 0.0050 | श्री भवरसिंह, मोहनसिंह, माधुसिंह पिता केशरसिंह, गजराबाई बेवा केशरसिंह राजपूत   |
|   |          | 96      | खा.।।            | 0.0050 | श्री वागसिंह पिता नवलसिंह राजपूत   |
| 3 | गोगुन्दा | 210     | चा.।, जा.।, बजड़ | 0.0950 | श्री देवा मुतवना नाथू बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |          | 217     | चा.।             | 0.0450 | मु. राधीबाई बेवा भेरा, भवरीबाई पिता भेरा 1/8 देवा, कालीया, अमरिंग पिता किष्ठा 3/8 हरिराम, प्रथा पिता उदा 1/2 हि.ब. बलाई सा. देह. खातेदार |
|   |          | 389     | चा.।।, जा.।।     | 0.0006 | श्री मांगीलाल, कन्हैयालाल, कुन्दनलाल, भगवतीलाल पिता शेषमल महाजन सा. देह. खातेदार   |
|   |          | 390     | चा.।।, जा.।।     | 0.0006 | श्रीमति कस्तुरीबाई नाथीबाई पिता ओगड़ लाल 1/2 भारता पिता दौला बलाई 1/2 सा. देह. हि. ब. खातेदार  |

| 1 | 2 | 3    | 4                   | 5      | 6  |
|---|---|------|---------------------|--------|--|
|   |   | 868  | बीड़, चट्टान        | 0.8500 | श्री नाथू लालू बंशी जगदीश पिता सरूप 1/3 बाबूलाल पिता मियाराम, चुनीलाल, तुलसीराम पिता धन्ना 2/3 नाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1451 | बीड़                | 0.0300 | श्री अम्बा बेवा शेरू रुपा पिता माणा नाई सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 1454 | बंजड़               | 0.0100 | श्री ऊंकार, मेधा पिता खूमा 1/5 मोती पिता आशा 1/5 प्रताप पिता भीमा 1/10 लक्ष्मीलाल पिता धन्ना 1/10 प्यारचन्द, प्रताप पिता किशन 2/15 देवीलाल, सोहनलाल, गणेश पिता वरदा मू खमानी बेवा वरदा 1/15 श्रीमति लक्ष्मीबाई पत्नि नारायण, श्रीमति बाबूबाई पत्नि नवला 2/15 केशा पिता रोड़ा 1/15 कुम्हार सा. देह. खातेदार |
|   |   | 1483 | बंजड़               | 0.0150 |  |
|   |   | 1489 | चा. I, जा. II       | 0.0300 |  |
|   |   | 1494 | बा. I               | 0.0300 |  |
|   |   | 1495 | बा. I               | 0.0500 |  |
|   |   | 1508 | खा. II              | 0.0250 |  |
|   |   | 1509 | खा. II              | 0.0200 |  |
|   |   | 1518 | खा. II              | 0.0050 |  |
|   |   | 1519 | बंजड़               | 0.0100 |  |
|   |   | 1524 | चा. I, जा. II       | 0.0300 |  |
|   |   | 1526 | बंजड़               | 0.0200 |  |
|   |   | 1474 | चा. II, जा. II      | 0.0150 |  |
|   |   | 1493 | बीड़                | 0.0025 |  |
|   |   | 1552 | चा. I               | 0.0200 |  |
|   |   | 1554 | चा. I, बंजड़        | 0.0500 |  |
|   |   | 1555 | चा. I               | 0.0400 |  |
|   |   | 1565 | सड़क                | 0.1200 | बिलानाम, नाकाबिल काश्त   |
|   |   | 1642 | चा. I, बंजड़        | 0.0350 | श्री गणेश, हिरा पिता नारू मू. नानीबाई बेवा नारू 1/3 वरदी बेवा नाथू, हीरालाल मुतवना नाथू, नारायणी, लाली लक्ष्मी पिता नाथू 1/3 हि. ब. पूना पिता मोती 1/3 तेली सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 1644 | आ.चा.               | 0.0050 | श्री गणेश, हिरा पिता नारू मू. नानीबाई बेवा नारू तेली नाथू पिता धन्ना, पूना पिता मोती 1/3 हि. ब. उमा पिता हेमा मू. जमनी बेवा हेमा 1/6 लहरीलाल गोपू पिता डालू मू. भमरी बेवा डालू 1/6 तेली पूनचन्द पिता मोतीलाल 1/9 सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1645 | चा. I, जा. I, बंजड़ | 0.0450 | श्री गणेश, हिरा पिता नारू मू. नानीबाई बेवा नारू 1/3 वरदी बेवा नाथू, हीरालाल मुतवना नाथू, नारायणी, लाली लक्ष्मी पिता नाथू 1/3 हि. ब. पूना पिता मोती 1/3 तेली सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 1670 | चा. I               | 0.0050 |  |
|   |   | 1671 | चा. I, जा. I, बंजड़ | 0.0100 |  |
|   |   | 1648 | चा. I, जा. I        | 0.0250 | श्री पूनचन्द पिता मोतीलाल तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1668 | चा. I, जा. I, बंजड़ | 0.0250 | श्री गोधनला, मांगीलाल पिता कालूलाल महाजन हि.ब. सा. देह. खातेदार  |

| 1 | 2 | 3    | 4                   | 5      | 6  |
|---|---|------|---------------------|--------|--|
|   |   | 1669 | चा. I, जा. I, बंजड़ | 0.1050 | श्री उदा पिता हेमा पू. जमनी बेवा हेमा 1/2 लहरी लाल गोपू पिता डालू मु. भमरी बेवा डालू 1/2 तेली सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 1672 | चा. जा. I, बंजड़    | 0.0550 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 1673 | चा. जा. I, बंजड़    | 0.0450 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 1691 | चा. जा. I, बंजड़    | 0.0200 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 1693 | खा. I               | 0.1150 | श्री देवा पिता नाथू मू. अम्बा बेवा शेरू रूपा पिता माणा नाई सा. देह. हि.ब. खातेदार  |
|   |   | 1695 | खा. I               | 0.0700 | श्री देवा पिता नाथू मू. अम्बा बेवा शेरू रूपा पिता माणा नाई सा. देह. हि.ब. खातेदार  |
|   |   | 1719 | आबादी               | 0.0050 | बिलानाम नाकाविल काश्त  |
|   |   | 1720 | बा. I, बीड़         | 0.0800 | श्री पूना पिता मोती तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1722 | खा. II, बीड़        | 0.0650 | श्री अमृतलाल पिता हीरालाल सोनी सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1723 | बीड़                | 0.0500 | श्री गोरीशंकर पिता भवरलाल 1/6 मांगीलाल पिता रतनलाल 1/6 मदनलाल पिता हमेरलाल 1/9 हीराशंकर पिता नरवदाशंकर 1/9 मोहनशंकर कृष्णवल्लभ पिता भगवतीलाल 1/9 माधूलाल पिता चतरभुज 1/3 ब्राह्मण सा. उदयपुर खातेदार |
|   |   | 1758 | बंजड़, खड़डा        | 0.0400 | श्री भवरलाल मुतवना कना मोई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1759 | खा. II, बंजड़       | 0.0600 | श्री भवरलाल मुतवना कना मोई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1772 | खा. II              | 0.1150 | श्री तुलच्छा, भगा पिता मोती तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1785 | बंजड़               | 0.1800 | श्री भमरू, मोड़ा, रामा, देवा पिता कालू 1/2 केशीबाई, भंवरीबाई पिता चतरभुज 1/2 तेली सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 1786 | बंजड़               | 0.2350 | श्री भवरलाल, चतरसिंह पिता फतहलाल महाजन सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1790 | बंजड़               | 0.1300 | श्री नाथूलाल, हीरालाल पिता देवीलाल मु. लच्छूडी बेवा देवीलाल 1/2 रूपा पिता खेमा 1/2 मोई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1800 | खा. II, बंजड़       | 0.0600 | श्री मोड़ा, देवा पिता कालू 1/2 हि.ब. रामा पिता कालू 1/2 सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 1891 | आबादी               | 0.0500 | श्री कन्हैयालाल पिता शेषमल जैन (मेहता) सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2281 | बंजड़, खड़डा        | 0.0700 | श्री विमलराम पिता कृष्णगोपाल व्यास सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2354 | खा. I               | 0.0800 | श्री नारायण, किशन कंसु मगन कैलाश प्यारी पिता देवा मु. देवलीबाई बेवा देवा बलाई सा. देह. खातेदार   |

| 1 | 2 | 3    | 4          | 5      | 6   |
|---|---|------|------------|--------|---|
|   |   | 2358 | खा.।       | 0.0200 | श्री अम्बालाल पिता किशनलाल खटीक सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2361 | खा.।       | 0.0800 | श्री नारायण, किशन केशु मगन कैलाश प्यारी पिता देवा मु. देवलीबाई बेवा देवा बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2367 | बा.।।      | 0.0300 | श्री अलाऊद्दी, सधीमोहम्मद पिता इशेखाँ 1/2 हमीद खाँ, गुलशर खाँ मुनी खाँ, शहीद खाँ पिता सुल्तान एवं मु. आशीया बेगम पत्नि सुल्तान खाँ 1/4 श्रीमति राधाबाई पत्नि गणेशलाल पालीवाल 1/4 सा. देह. खातेदार |
|   |   | 2371 | बीड़       | 0.0500 |   |
|   |   | 2520 | चा.।       | 0.0100 | श्री खेमराज, हरिराम, सवराम पिता दूदा बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2523 | चा.।       | 0.0200 | श्री गागीलाल, घुलाराम पिता वीराबलाई हि.ब.सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 2545 | खा.।       | 0.0450 | श्री कालूलाल, दलीचन्द पिता कुशल मु. माणीबाई बेवा कुशल खटीक सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 2547 | खा.।       | 0.0200 | श्री भजा पिता चतरा बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2548 | खा.।       | 0.0400 | श्री लोगर, डालू, लालू पिता मोती बलाई सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 2558 | चा.।।      | 0.0450 | श्री नारायण, किशन केशु मगन कैलाश प्यारी पिता देवा मु. देवलीबाई बेवा देवा बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2559 | चा.।।      | 0.0250 | श्रीमति बाबुड़ी-मोवनी पिता नाथू (माता भैरवीबाई)   |
|   |   | 2562 | खा.।       | 0.1100 | श्री लोगरिया पिता लाला बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2575 | खा.।       | 0.0450 | श्री गोकल-दौला-पना-धुला-मैरीया पिता हरलाला खटीक सा. देह. हि.ब. खातेदार  |
|   |   | 5947 | चा.।       | 0.1500 | श्री पन्नालाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5948 | चा.।, जा.। | 0.1600 | श्री थानीलाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 5949 | खा.।       | 0.2050 | श्री पन्नालाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5959 | चा.।       | 0.1500 | श्री पन्नालाल, थानीलाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. हि. ब. खातेदार  |
|   |   | 5961 | बंजड़      | 0.0100 | श्री पन्नालाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5968 | चा.।।      | 0.1150 | श्री पन्नालाल, थानीलाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. हि. ब. खातेदार  |
|   |   | 5970 | चा.।।      | 0.0450 | श्री नारायण पिता रोड़ा तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5971 | चा.।।      | 0.0550 | श्री नारायण पिता रोड़ा तेली सा. देह. खातेदार  |

| 1 | 2 | 3    | 4                  | 5      | 6  |
|---|---|------|--------------------|--------|--|
|   |   | 5973 | खा. II, बजड़       | 0.1000 | श्री पना-चम्पा-मेगा पिता जालू 3/4 भवरलाल<br>केसूलाल पिता भगा मु. नाथी बेवा भगा 1/4<br>नाई सा. देह खातेदार  |
|   |   | 5975 | खा. I              | 0.1000 | श्री पना-चम्पा-मेगा पिता जालू 3/4 भवरलाल<br>केसूलाल पिता भगा मु. नाथी बेवा भगा 1/4<br>नाई सा. देह. खातेदार |
|   |   | 5976 | खा. I              | 0.1300 | श्री मागीलाल, गणेशलाल- छगनलाल-शंकरलाल<br>पिता भरा नाई सा. देह. खातेदार                                     |
|   |   | 6079 | चा. II, खा. II     | 0.0550 | श्री जगदीश कुमार पिता कन्हैयालाल सुनार सा.<br>देह. खातेदार   |
|   |   | 6080 | चा. II             | 0.0500 | श्री जगदीश कुमार पिता कन्हैयालाल सुनार सा.<br>देह. खातेदार   |
|   |   | 6250 | चा. I, जा. I, बीड़ | 0.0750 | श्री चतरीया पिता भूरीया भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6252 | खा. II             | 0.0900 | श्री माना, मना-वरदा पिता केसा 1/2 चतरा<br>पिता भूरा 1/2 भील सा. देह. खातेदार                               |
|   |   | 6253 | चा. I, जा. I       | 0.0700 | श्री माना, मना-वरदा पिता केसा 1/2 चतरा<br>पिता भूरा 1/2 भील सा. देह. खातेदार                               |
|   |   | 6254 | खा. I              | 0.0700 | श्री चतरीया पिता भूरीया भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6256 | चा. I, रुड़ड़ा     | 0.1000 | श्री वरदा-माना-पना पिता केश भील सा. देह.<br>हि. ब. खातेदार   |
|   |   | 6257 | वा. I              | 0.0750 | श्री माना, मना-वरदा पिता केसा 1/2 चतरा<br>पिता भूरा 1/2 भील सा. देह. खातेदार                               |
|   |   | 6264 | खा. I              | 0.0700 | श्री प्रकाश पिता डालू ना. बा. व. वि. दादी मु. उपली<br>बेवा कना भील सा. देह. खातेदार                        |
|   |   | 6266 | चा. I              | 0.0550 | श्री रुपा, घीसा पिता कालू ना. बा. व. वि. ऐजी बेवा<br>कालू 1/2 केटिंग पिता जीवा 1/2 भील सा.<br>देह. खातेदार |
|   |   | 6267 | मकान               | 0.0500 |  |
|   |   | 6269 | चा. I, थोड़        | 0.0950 |  |
|   |   | 6270 | चा. I              | 0.0900 |  |
|   |   | 6418 | खा. II, बीड़       | 0.0800 |  |
|   |   | 6425 | बा. I, बजड़        | 0.0550 |  |
|   |   | 6426 | बा. I, बजड़        | 0.0450 |  |
|   |   | 6428 | बोड़               | 0.0300 |  |
|   |   | 6419 | खा. I              | 0.1350 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6420 | खा. I              | 0.0450 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6518 | बा. I, बजड़        | 0.0500 | श्री खमाणा पिता उदा 18/19 धन्नाराम पिता<br>देवा 1/19 भील सा. गोड़ान तहसील गिर्वा<br>खातेदार                |
|   |   | 6519 | बा. I, बजड़        | 0.0250 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6521 | बा. I, बजड़        | 0.0350 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |

| 1 | 2 | 3    | 4             | 5      | 6  |
|---|---|------|---------------|--------|--|
|   |   | 6524 | बा. I, बंजड़  | 0.0800 | श्री अम्बुड़ा कालू पिता गोविन्द मु. छगनी बेवा गोविन्द भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6525 | खा. II, बंजड़ | 0.0800 | श्री अम्बुड़ा कालू पिता गोविन्द मु. छगनी बेवा गोविन्द भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6534 | बीड़          | 0.1450 | श्री खमाण्डा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6540 | रास्ता        | 0.0400 | श्री रूपा, मिदया टैका धम्म लक्ष्मी नारायणी पिता देवा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6542 | खा. II        | 0.0250 | श्री कना पिता भेरा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6543 | खा. II        | 0.0300 | श्री मोड़ा पिता भेरा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6544 | खा. II        | 0.0250 | श्री कना पिता भेरा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6545 | खा. II        | 0.0250 | श्री कना पिता भेरा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6551 | आबादी         | 0.0100 | श्री कना, मोड़ा पिता भेरा, जगन्नाथ पिता पुरा 1/4 धीसू पिता पन्ना 1/4 सोहन पिता गणेश 1/8 दौला चैना पिता प्रथा 1/8 देवीलाल भित्ता माना भील 1/4 नि. मलासि कला खातेदार |
|   |   | 6657 | बा. I, बंजड़  | 0.0550 | श्री नारायणलाल, हीरालाल, मीठालाल, उदयलाल, देवली, रूपली, दुर्गा पिता कालू मू. चैनकी बेवा कालू भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6656 | खा. II        | 0.0150 | श्री लोगरिया, लाल, प्रथा, माना पिता खमाण्डा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6659 | खा. I         | 0.0500 |  |
|   |   | 6660 | खा. I         | 0.0550 |  |
|   |   | 6661 | खा. I         | 0.0250 | श्री कुशल पिता पेमा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6662 | खा. I, बंजड़  | 0.0250 | श्री रोड़ा पिता खेमा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6666 | चा. I, जा. I  | 0.1000 | श्री नाथू पिता करमा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6667 | चा. I, जा. I  | 0.0350 | श्री नाथू पिता करमा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 1560 | खा. II, बंजड़ | 0.0800 | श्री जगदीश पिता रूपलाल जशोदा पत्नि जगदीश नाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2296 | आ.चा.         | 0.1800 | बिलानाम नाकाबिल काश्त  |
|   |   | 168  | खा. II        | 0.0025 | श्री मोती, प्यारा पिता हरिराम बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 174  | चा. II        | 0.0100 |  |
|   |   | 175  | आ.चा.         | 0.0100 |  |
|   |   | 877  | चा. I         | 0.0250 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 878  | चा. I         | 0.0350 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 879  | जा. I         | 0.0350 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 880  | खा. I         | 0.1000 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 881  | बंजड़         | 0.0600 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 884  | बंजड़         | 0.0900 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 885  | जा. I         | 0.0450 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 886  | बंजड़         | 0.1800 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 887  | खा. I         | 0.0400 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 888  | चा. II        | 0.0925 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 889  | बंजड़         | 0.0100 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |

| 1 | 2 | 3         | 4                   | 5      | 6  |
|---|---|-----------|---------------------|--------|--|
|   |   | 890       | चा. II              | 0.0150 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 892       | चा. I               | 0.0025 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 1694      | खा. II              | 0.0006 | श्री गुलाब श्याम जी स्थान देह खातेदार  |
|   |   | 1512      | बंजड़               | 0.0050 | श्री हरीसिंह पिता भैरूलाल मकवना राजपूत सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5979      | खा. II              | 0.0450 | श्री मांगीलाल, रोड़ीलाल, हीरालाल पिता देवा मु. नोजीबाई बेवा देवा 1/2 नाई, मोहनलाल पिता कना 1/2 नाई सा. देह. खातेदार            |
|   |   | 1760      | बंजड़               | 0.0006 | श्री भवरलाल मुतवना कना मोई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 1893      | आबादी               | 0.0850 | श्रीमति प्रेमलता पत्नि कन्हैयालाल जैन (मेहता) सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 2291      | दी. पी.             | 0.0650 | श्री रमाकान्त, कुपणगोपाल पिता नीलकण्ठ 1/3 हि.ब. लक्ष्मीकान्त पिता मगनलाल 1/3 विमलराम पिता कुपणगोपाल व्यास 1/3 सा. देह. खातेदार |
|   |   | 2356      | खा. I               | 0.0800 | श्री हरिवल्लभ, सुर्यप्रकाश पिता मोहनलाल ब्राह्मण सा. देह. हि.ब. खातेदार  |
|   |   | 2452      | चा. I, जा. I        | 0.0025 | श्री रामलाल, दौलतराम पिता देवीलाल 1/2 किशोर पिता भगा 1/2 लुहार सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 2518      | चा. I               | 0.0025 | श्री खेमराज, हरिराम, सवराम पिता दूदा बलाई सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 2519      | चा. I               | 0.0050 | श्री खेमराज, हरिराम, सवराम पिता दूदा बलाई सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 2546      | खा. I               | 0.0250 | श्री धुलचन्द, लक्ष्मण, सवलाल, नाथूलाल पिता हरिराम मु. माणी बेवा हरिराम खटीक सा. देह. खातेदार                                   |
|   |   | 2569      | खा. II              | 0.0400 | श्री देवा पिता लाला बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6814/2547 | खा. I               | 0.0100 | श्री लोंगरिया पिता लाला बलाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6285/1    | आबादी, खा. II       | 0.0100 | श्रीमति बीबला पत्नि बद्रीलाल मीणा सा. गोर्धन विलास उदयपुर बकुड़ी पत्नि देवा भील सा. कोविया तहसील गोमुन्दा खातेदार              |
|   |   | 5945      | बंजड़               | 0.0250 | श्री पन्नालाल, थानीलाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. हि. ब. खातेदार   |
|   |   | 5966      | चा. I               | 0.0050 | श्री पन्नालाल, थानीलाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. हि. ब. खातेदार   |
|   |   | 5962      | चा. I, जा. I        | 0.0200 | श्री थानीलाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5967      | चा. I, जा. I, बंजड़ | 0.0006 | श्री थानीलाल पिता चुनीलाल तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6442      | खा. II              | 0.0150 | श्री कना पिता भैरा तेली सा. देह.   |

| 1 | 2 | 3       | 4                 | 5      | 6  |
|---|---|---------|-------------------|--------|--|
|   |   | 6443    | खा.               | 0.0025 | श्री कना पिता भेरा तेली सा. देह.   |
|   |   | 5965    | चा.               | 0.0150 | श्री नारायण पिता रोड़ा तेली सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 5964    | चा.               | 0.0150 | श्री प्रेमलाल पिता केसूलाल मगनीबाई बेवा केसूलाल तेली सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5980    | खा.               | 0.0150 | श्री मांगीलाल, गणेशलाल— छगनलाल—शंकरलाल पिता भेरा नाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 5978    | बंजड़             | 0.0150 | श्री मांगीलाल, गणेशलाल— छगनलाल—शंकरलाल पिता भेरा नाई सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6068    | खा.               | 0.0150 | श्री रामसिंह, केशरसिंह, महेन्द्रसिंह पिता किशनसिंह राजपूत सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6069    | खा.   , बंजड़     | 0.0900 | श्री रामसिंह, केशरसिंह, महेन्द्रसिंह पिता किशनसिंह राजपूत सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6073    | खा.               | 0.0025 | श्री भेरा पिता भारता भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6075    | खा.               | 0.1500 | श्री भेरा पिता भारता भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6076    | खा.  , बंजड़      | 0.1000 | श्री मांगीलाल, रोडीलाल, हीरालाल पिता देवा मु. नोजीबाई बेवा देवा 1/2 नाई, मोहनलाल पिता कना 1/2 नाई सा. देह. खातेदार       |
|   |   | 6077    | खा. बंजड़         | 0.1100 | श्री मांगीलाल, रोडीलाल, हीरालाल पिता देवा मु. नोजीबाई बेवा देवा 1/2 नाई, मोहनलाल पिता कना 1/2 नाई सा. देह. खातेदार       |
|   |   | 6263    | चा.               | 0.0200 | मु. जमनी बेवा मोड़ा केशर—उदकी, नोजकी टिमुडी पिता मोड़ा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6258    | चा.  , जा.        | 0.0450 | श्री चतरीया पिता भूरीया भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6421    | खा.               | 0.0200 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6422    | खा.               | 0.0350 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6533    | रोड़ी             | 0.0050 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6522    | खा.  , बंजड़      | 0.0006 | श्री खमाणा पिता उदा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6427    | बा.               | 0.0100 | श्री. रूपा, घीसा पिता कालू ना.बा.व. वि. ऐंजी बेवा कालू 1/2 करिंग पिता जीवा 1/2 भील सा. देह. खातेदार                      |
|   |   | 6287/1  | आबादी             | 0.0550 | श्रीमति नवली पत्नि हिमराम भील सा. आँतरी तहसील कुम्भलगढ़, श्रीमति बिबला पत्नि बदीलाला मीणा सा. गोर्धनविलास उदयपुर खातेदार |
|   |   | 6288/1  | आबादी             | 0.0650 | श्रीमति नवली पत्नि हिमराम भील सा. आँतरी तहसील कुम्भलगढ़, श्रीमति बिबला पत्नि बदीलाला मीणा सा. गोर्धनविलास उदयपुर खातेदार |
|   |   | 6288 Mi | खा., बंजड़, खड़डा | 0.0100 | श्री गणेश पिता भगा भील सा. देह. खातेदार  |

| 1 | 2 | 3         | 4                   | 5      | 6  |
|---|---|-----------|---------------------|--------|--|
|   |   | 6523      | खा. II              | 0.0100 | श्री अम्बुडा कालू पिता गोविन्द मु. छगनी बेवा गोविन्द भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6535      | बा. I               | 0.0050 | श्री रुपा मिठ्या टेका धर्मा लक्ष्मी नारायणी पिता देवा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6517      | बा. I, बंजड़        | 0.0100 | श्री रुपा मिठ्या टेका धर्मा लक्ष्मी नारायणी पिता देवा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6541      | आबादी, खा. II       | 0.0200 | श्री मोड़ा पिता भेरा 1/12 जगन्नाथ पिता पुरा 1/24 वक्ता राम पिता दौला 1/8 धीसू पिता पन्ना 1/4 सोहन पिता गणेश 1/8 दौला, चेना पिता प्रथा 1/8 देवीलाल पिता पाना भील 1/4 नि. मलासि काला खातेदार |
|   |   | 6647      | खा. II, बंजड़       | 0.0200 | श्री लोगरिया, लाल, प्रथा, माना पिता खमाणा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6654      | बा. I, बंजड़        | 0.0100 | श्री लोगरिया, लाल, प्रथा, माना पिता खमाणा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6655      | बा. I, बंजड़        | 0.0050 | श्री लोगरिया, लाल, प्रथा, माना पिता खमाणा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6815/6658 | खा., बंजड़          | 0.0300 | श्री नारायणलाल, हीरालाल, मौठालाल, उदयलाल, देवली, सपली, दुर्गा पिता कालू मू. चैनकी बेवा कालू भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6679      | चा. I, जा. I        | 0.0450 | श्री कुशाल पिता भेमा भील सा. देह. खातेदार  |
|   |   | 6663      | चा. I, जा. I, बंजड़ | 0.0500 | श्री गणेश पिता देवा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6664      | चा. I, जा. I        | 0.0150 | श्री दौला पिता परथा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 6665      | चा. I, जा. I, बंजड़ | 0.0100 | श्री चेना पिता परथा भील सा. देह. खातेदार   |
|   |   | 2537      | रास्ता              | 0.0050 | बिलानाम नाकाबिल काश्त  |
|   |   | 6539      | रास्ता              | 0.0100 | बिलानाम नाकाबिल काश्त  |
|   |   | 2297 Mi   | मगरी                | 0.1300 | बिलानाम नाकाबिल काश्त  |
|   |   | 270       | रास्ता              | 0.0300 | बिलानाम नाकाबिल काश्त  |
|   |   | 2292      | चट्टान              | 0.0450 | बिलानाम नाकाबिल काश्त  |
|   |   | 2297/1    | आबादी               | 0.0700 | दूर संचार विभाग, गोगुन्दा  |
|   |   | 2297/2    | मगरी                | 0.0900 | जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, गोगुन्दा   |
|   |   | 271       | सड़क                | 0.2300 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 2293      | सड़क                | 0.2650 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 2568      | सड़क                | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6864/2347 | सड़क                | 0.0050 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6865/2350 | सड़क                | 0.0050 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6866/2351 | सड़क                | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6867/2353 | सड़क                | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6868/2353 | सड़क                | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6869/2362 | सड़क                | 0.0150 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6854/281  | सड़क                | 0.0025 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |
|   |   | 6858/2294 | सड़क                | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एव पथ  |

| 1 | 2         | 3              | 4                    | 5      | 6   |
|---|-----------|----------------|----------------------|--------|---|
|   |           | 6859/2296      | सड़क                 | 0.0500 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6860/2297      | सड़क                 | 0.1800 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6874/2530      | सड़क                 | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6875/2531      | सड़क                 | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6878/2570      | सड़क                 | 0.0150 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6879/2571      | सड़क                 | 0.0050 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6861/2342      | सड़क                 | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6862/2344      | सड़क                 | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6863/2346      | सड़क                 | 0.0150 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6852/178       | सड़क                 | 0.0150 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6883/6722/2971 | सड़क                 | 0.0500 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6870/2523      | सड़क                 | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6871/2524      | सड़क                 | 0.0200 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6872/2528      | सड़क                 | 0.0250 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6873/2529      | सड़क                 | 0.0050 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 6730/2453      | सड़क                 | 0.0100 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 212            | सड़क                 | 0.0700 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 222            | सड़क                 | 0.0250 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 223            | सड़क                 | 0.0200 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 226            | सड़क                 | 0.0600 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 272            | सड़क                 | 0.1150 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 273            | सड़क                 | 0.0400 | सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन एवं पथ  |
|   |           | 437            | रास्ता               | 0.1150 | बिलानाम नाकाबिल काश्त   |
|   |           | 758            | रास्ता               | 0.0300 | बिलानाम नाकाबिल काश्त   |
|   |           | 913            | रास्ता               | 0.0300 | बिलानाम नाकाबिल काश्त   |
|   |           | 2453           | रास्ता               | 0.0550 | बिलानाम नाकाबिल काश्त   |
| 4 | ओवराखुर्द | 3549/3281      | आवासीय,<br>वाणिज्यिक | 0.0300 | श्री बाबुलाल, दुर्गाशंकर, अशोक कुमार पिता<br>अमृतलाल ब्राह्मण   |
| 5 | झाड़ोली   | 1995           | खा.।                 | 0.0450 | श्री प्रेमदान पिता शम्भूदान 1/2 चारण राजा गला<br>कालू पिता खेमा भेगवाल 1/2  |
| 6 | सेमताल    | 3646/1380      | बंजड़                | 0.0150 | श्री बंशीलाल, घासीराम, गणेशलाल, नानालाल<br>पिता मियाशंकर मु. दाखुबाई बेवा मियाशंकर<br>1/2 हि.ब. ब्राह्मण सा. देह. खातेदार रोशनलाल,<br>ख्यालीलाल, चतरसिंह भगवतीलाल, कमलाबाई,<br>पुठयाबाई पिता फतहलाल मु. भूरीबाई बेवा<br>फतहलाल महाजन 1/2 सा. गोगुन्दा खातेदार |
| 7 | खाखड़ी    | 122            | नाली                 | 0.0100 | बिलानाम गैर काबिल काश्त   |
|   |           | 184            | आबादी                | 0.1050 | बिलानाम गैर काबिल काश्त   |
|   |           | 721            | बीड़                 | 0.0500 | महफुज चरनोट विकास पंचायत मजावड़ी  |

| 1 | 2 | 3   | 4   | 5      | 6  |
|---|---|-----|-----|--------|--|
|   |   | 255 | बीड | 0.0006 | श्री रूपा-दोला-टीला पिता वगता मु. भगली बेवा वगता 1/4 लालू गमना भंवर पिता गला मु. गलकी बेवा गला 1/4 हि.ब. भीखला वरदा पिता नोजा 1/4 हि.ब. ना.ब.व.वि. मु. तुलसी बेवा नोजा भील सा. देह. खातेदार मु.वि.क. (हिस्सा लालू गमना भंवर पिता गला रूपा दोला टीला पिता वगता पर ) |
|   |   | 383 | बीड | 0.0100 | श्री खेमराज पिता किशोर मु. भवानरी बेवा कालू 1/2 सा. ओबराखुर्द लालु पिता गंगाराम 1/2 ब्राह्मण सा. जोशियों की भागल मु. जसवन्तगढ़ खातेदार   |

(फाइल

[ फा. सं. भारात्रा/11014/तकनीकी/ईस्ट-वेस्ट-II/एल.ए./उदयपुर/2005/भू.अधि.-89 ]

प्रभाकर, उप सचिव

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(Department of Road Transport and Highways)****NOTIFICATION**

नव. भारत सरकार

New Delhi, the 16th December, 2005

**S.O. 1782(E).**— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Shipping, Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways, number S.O. 1465 (E), dated the 6<sup>th</sup> October 2005, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule appended to that notification for the public purpose of building (four-laning) of National Highway No. 76 on the stretch of land from Km. 57.000 to Km. 86.000 in District Udaipur, in the State of Rajasthan;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Rajasthan Patrika" and "Dainik Bhasker", both dated the 28<sup>th</sup> October 2005;

And whereas, no any objection has been received, from any persons interested in the land by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto should be acquired for the aforesaid purpose;

And, further in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that, on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

**SCHEDULE**

**Land to be acquired with or without structure for building (four-laning) ,on the stretch of  
National Highway No. 76 from Km. 57.000 to Km 86.000 in the State of Rajasthan**

**Tehsil: Gogunda****District: Udaipur**

| Serial number | Name of village | Servey/ Khasara number | Type of land | Area of land to be acquired in Hect. | Name of the land owner  |
|---------------|-----------------|------------------------|--------------|--------------------------------------|---|
| 1             | 2               | 3                      | 4            | 5                                    | 6   |
| 1             | Jelani          | 52                     | Bidh         | 0.5200                               | Shri Ramsingh, Fatehsingh, Partapsingh S/o Kesharsingh Ratabai Beva Kesharsingh Rajput              |
|               |                 | 55                     | Kha.II       | 0.1350                               | Shri Ramsingh, Fatehsingh, Partapsingh S/o Kesharsingh Ratabai Beva Kesharsingh Rajput              |
|               |                 | 286                    | Kha.I        | 0.0200                               | Shri Chimansingh S/o Rupsingh Rajput  |
|               |                 | 287                    | Cha.II       | 0.2000                               | Shri Kishansingh S/o Lalsingh Rajput  |
|               |                 | 288                    | Cha.II       | 0.0650                               | Shri Chimansingh S/o Rupsingh Rajput  |
|               |                 | 298                    | Kha.I        | 0.1000                               | Shri Kishansingh S/o Lalsingh Rajput  |
|               |                 | 304                    | Cha.I        | 0.0450                               | Shri Anadhsingh, Sohansingh, Jagnathsingh Vandnasingh, Fatehsingh, DhaneSingh S/o Vagatsingh Rajput |
|               |                 | 306                    | Cha.I        | 0.0400                               | Shri Anadhsingh, Sohansingh, Jagnathsingh Vandnasingh, Fatehsingh, DhaneSingh S/o Vagatsingh Rajput |
|               |                 | 319                    | Kha.II       | 0.1200                               | Shri Panibai Beva Modhsingh 1/3 Dungarsingh Jalamsingh S/o Heersingh 2/3 Rajput                     |
|               |                 | 320                    | Kha.II       | 0.1300                               | Shri Panibai Beva Modhsingh 1/3 Dungarsingh Jalamsingh S/o Heersingh 2/3 Rajput                     |
|               |                 | 410                    | Kha.II       | 0.1050                               | Shri Pemali Beva Kalya Gulab Vagta Surta S/o Kalya 1/2 Khaman S/o Chokha 1/2 Bheel                  |
|               |                 | 412                    | Kha.I        | 0.1300                               | Shri Panibai Beva Modhsingh 1/3 Dungarsingh Jalamsingh S/o Heersingh 2/3 Rajput                     |
|               |                 | 413                    | Kha.I        | 0.1250                               | Shri Panibai Beva Modhsingh 1/3 Dungarsingh Jalamsingh S/o Heersingh 2/3 Rajput                     |
|               |                 | 419                    | Kha.I        | 0.0200                               | Shri Panibai Beva Modhsingh 1/3 Dungarsingh Jalamsingh S/o Heersingh 2/3 Rajput                     |
|               |                 | 421                    | Bidh         | 0.0050                               | Shri Panibai Beva Modhsingh 1/3 Dungarsingh Jalamsingh S/o Heersingh 2/3 Rajput                     |
|               |                 | 422                    | Bidh         | 0.0150                               | Shri Panibai Beva Modhsingh 1/3 Dungarsingh Jalamsingh S/o Heersingh 2/3 Rajput                     |
|               |                 | 423                    | Ba.I         | 0.0150                               | Shri Sohan S/o Bhera Bheel  |
|               |                 | 440                    | Cha.II       | 0.0350                               | Shri Khemla S/o Moti Bheel  |
|               |                 | 441                    | Bidh         | 0.0200                               | Shri Khemla S/o Moti Bheel  |
|               |                 | 442                    | Bidh         | 0.0350                               | Shri Khemla S/o Moti Bheel  |
|               |                 | 443                    | Bidh         | 0.0400                               | Shri Sohan S/o Bhera Bheel  |
|               |                 | 445                    | Bidh         | 0.0200                               | Shri Khemla S/o Moti Bheel  |
|               |                 | 447                    | Kha.II       | 0.0750                               | Shri Kalya S/o Moti Bheel   |
|               |                 | 448                    | Kha.II       | 0.0500                               | Shri Khemla S/o Moti Bheel  |
|               |                 | 451                    | Kha.II       | 0.0450                               | Shri Gumansingh S/o Devisingh Rajput  |

| 1 | 2          | 3         | 4             | 5      | 6  |
|---|------------|-----------|---------------|--------|--|
|   |            | 454       | Kha.II, Bidh  | 0.0500 | Shri Javansingh S/o Devisingh Rajput   |
|   |            | 470       | Cha.I, Ja.I   | 0.0050 | Shri Javansingh S/o Devisingh Rajput   |
|   |            | 479       | Kha.II        | 0.1100 | Shri Nana Noja Kesha S/o Bhera Bheel   |
|   |            | 484       | Kha.II        | 0.0600 | Shri Nana Noja Kesha S/o Bhera Bheel   |
|   |            | 493       | Kha.II        | 0.0050 | Shri Kalya S/o Moti Bheel  |
|   |            | 494       | Ba.I          | 0.0250 | Shri Khemla S/o Moti Bheel   |
|   |            | 497       | Bidh          | 0.1650 | Shri Gumansingh, Javansingh S/o<br>Devisingh 2/3 Hi. B. Heersingh<br>Kishansingh S/o Partapsingh 1/3 Rajput                          |
|   |            | 498       | Bidh          | 0.1800 | Shri Pemali Beva Kalya Gulab Vagta<br>Surta S/o Kalya 1/2 Khaman S/o Chokha<br>1/2 Bheel   |
|   |            | 499       | Ba.I          | 0.0450 | Shri Pemali Beva Kalya Gulab Vagta<br>Surta S/o Kalya 1/2 Khaman S/o Chokha<br>1/2 Bheel   |
|   |            | 500       | Bidh          | 0.0150 | Shri Sohan S/o Bhera Bheel   |
|   |            | 501       | Bidh          | 0.0650 | Shri Sohan S/o Bhera Bheel   |
|   |            | 510       | Bidh          | 0.0050 | Shri Gumansingh, Javansingh S/o<br>Devisingh 2/3 Hi. B. Heersingh<br>Kishansingh S/o Partapsingh 1/3 Rajput                          |
|   |            | 660/628   | Bidh          | 0.1400 | Shri Sohan S/o Vagatsingh Rajput   |
|   |            | 50        | Bidh          | 0.0600 | Bilanam Sarkar   |
|   |            | 56        | Rasta         | 0.0500 | Bilanam Sarkar   |
|   |            | 485       | Ba.I          | 0.0250 | Bilanam Sarkar   |
|   |            | 488       | Bidh          | 0.0250 | Bilanam Sarkar   |
|   |            | 51        | Road          | 0.2750 | Public Works Departement Road &<br>Building, Udaipur   |
|   |            | 46        | Bidh          | 0.0150 | Shri Raysingh S/o Shambhusingh Rav<br>Sa. Davmadadha   |
|   |            | 260       | Cha.II, Ja.II | 0.0500 | Shri Kishansingh S/o Lalsingh Rajput   |
|   |            | 335       | Cha.II, Ja.II | 0.0350 | Shri Deva S/o Pema Bheel   |
|   |            | 512       | Bidh          | 0.0100 | Shri Kalya S/o Moti Bheel  |
|   |            | 513       | Aa.Cha.       | 0.0050 | Shri Kalya Khemla S/o Moti Bheel   |
|   |            | 514       | Ba.I          | 0.0300 | Shri Khemla S/o Moti Bheel   |
|   |            | 515       | Bidh          | 0.0600 | Shri Kalya Khemla S/o Moti Bheel   |
|   |            | 715/628/1 | Bidh          | 0.2300 | Shri Sohansingh S/o Vagatsingh, Kalibai<br>W/o Sohan Singh Rajput Gai. Khatedar  |
|   |            | 712/657   | Bidh          | 0.0850 | Shri Bhairusingh S/o Anadhsingh,<br>Lungakunvar W/o Bhairusingh Rajput<br>Gai. Khatedar  |
|   |            | 36        | Bidh          | 0.0700 | Bilanam Sarkar   |
|   |            | 679/628   | Bidh          | 0.4350 | Bilanam Sarkar   |
| 2 | Chak Jalar | 86        | Bidh          | 0.1100 | Shri Vagtavarsingh S/o Navalsingh<br>Rajput  |
|   |            | 89        | Ba.I          | 0.1000 | Shri Takhta Kalu S/o Raju Balai  |
|   |            | 90        | Kha.II        | 0.0700 | Shri Varda S/o Ading balai   |
|   |            | 92        | Kha.I         | 0.0300 | Shri Vagtavarsingh S/o Navalsingh<br>Rajput  |
|   |            | 93        | Kha.I         | 0.0200 | Shri Bhanvarsingh, Mohansingh,<br>Madhusingh S/o Kesharsingh, Gajrabai<br>Beva Kesharsingh Rajput                                    |
|   |            | 94        | Bidh          | 0.0150 | Shri Vagsingh S/o Naval Singh Rajput   |
|   |            | 97        | Bidh          | 0.0300 | Shri Bhanvarsingh, Mohansingh,<br>Madhusingh S/o Kesharsingh, Gajrabai<br>Beva Kesharsingh 1/3 Vagsingh S/o<br>Navalsingh 2/3 Rajput |

| 1 | 2       | 3    | 4                    | 5      | 6   |
|---|---------|------|----------------------|--------|---|
|   |         | 124  | Bidh                 | 0.0550 | Shri Tagta S/o Raja 1/4 Rajeeya Vardiya S/o Ading 3/4 Balai   |
|   |         | 125  | Bidh                 | 0.0700 | Shri Tagta S/o Raja 1/4 Rajeeya Vardiya S/o Ading 3/4 Balai   |
|   |         | 131  | Bidh                 | 0.2300 | Shri Bhanvarsingh, Mohansingh, Madhusingh S/o Kesharsingh, Gajrabai Beva Kesharsingh Rajput   |
|   |         | 87   | Bidh                 | 0.0500 | Shri Vagtavarsingh S/o Navalsingh Rajput  |
|   |         | 126  | Rasta                | 0.0300 | Shri Tagta S/o Raja 1/4 Rajeeya Vardiya S/o Ading 3/4 Balai   |
|   |         | 81   | Road                 | 0.0400 | Public Works Departement Road & Building, Udaipur   |
|   |         | 82   | Bidh                 | 0.0400 | Shri Takhta Kalu S/o Rajya Balai  |
|   |         | 95   | Kha.II               | 0.0050 | Shri Bhanvarsingh, Mohansingh, Madhusingh S/o Kesharsingh, Gajrabai Beva Kesharsingh Rajput   |
|   |         | 96   | Kha.II               | 0.0050 | Shri Vagsingh S/o Naval Singh Rajput  |
|   |         | 210  | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0950 | Shri Deva Mutvana Nathu Balai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |         | 217  | Cha.I                | 0.0450 | Mu. Radhibai Beva Bhera, Bhanvaribai S/o Bhera 1/8 Deva, Kaliya, Amring S/o Kishna 3/8 Hariram, partha S/o Uda 1/2 Hi. B. Balai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |         | 389  | Cha.II, Ja.II        | 0.0006 | Shri Mangeelal, Kanhaiyalal, Kundanlal, Bhagvatilal S/o Sheshmal Mahajan Sa. Deh. Khatedar  |
|   |         | 390  | Cha.II, Ja.II        | 0.0006 | Smt. Kasturibai Nathibai S/o Ogadh Lal 1/2 Bharta S/o Doula Balai 1/2 Sa. Deh. Hi. B. Khatedar  |
|   |         | 868  | Bidh, Chattan        | 0.8500 | Shri Nathu Lal Bansi Jagdish S/o Sarup 1/3 Babulal S/o Miyaram, Chunilal, Tulsiram S/o Dhanna 2/3 Nai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |         | 1451 | Bidh                 | 0.0300 | Shri Amba Beva Shera Rupa S/o Mana Nai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |         | 1454 | Banjadh              | 0.0100 | Sh. Unkar, Medha S/o Khuma 1/5 Moti S/o Aasha 1/5 Pratap S/o Bheema 1/10 Laxmilal S/o Dhanna 1/10 Pyarchand, Pratap S/o Kishan 2/15 Devilal, Sohan Lal, Ganesh S/o Varda, Mu. Khmani Beva Varda 1/15 Smt. Laxmi bai W/o Narayan Smt. Babubai W/o Navla 2/15 Kesa S/o Roda 1/15 Kumhar Sa. Deh. khatedar |
|   |         | 1483 | Banjadh              | 0.0150 |   |
|   |         | 1489 | Cha.II, Ja.II        | 0.0300 |   |
|   |         | 1494 | Ba.I                 | 0.0300 |   |
|   |         | 1495 | Ba.I                 | 0.0500 |   |
|   |         | 1508 | Kha.II               | 0.0250 |   |
|   |         | 1509 | Kha.II               | 0.0200 |   |
|   |         | 1518 | Kha.II               | 0.0050 |   |
|   |         | 1519 | Banjadh              | 0.0100 |   |
|   |         | 1524 | Cha.II, Ja.II        | 0.0300 |   |
|   |         | 1526 | Banjadh              | 0.0200 |   |
|   |         | 1474 | Kha.I                | 0.0150 |   |
|   |         | 1493 | Kha.II               | 0.0025 |   |
|   |         | 1552 | Cha.I                | 0.0200 |   |
| 3 | Gogurda | 1554 | Cha.I, Banjadh       | 0.0500 | Sh. Prakash Chandra S/o Nathulal Sunar Sa. Deh Khatedar   |
|   |         | 1555 | Cha.I                | 0.0400 |   |
|   |         | 1565 | Road                 | 0.1200 |   |
|   |         | 1642 | Cha.I, Banjadh       | 0.0350 | Bilanam Nakabil Kast  |
|   |         |      |                      |        | Sh. Ganesh, Heera S/o Naru Mu. Nani Bai beva Naru 1/3 Vardi beva Nathu Heera lal mutwana Nathu Narayani Lali Laxmi S/o Nathu 1/3 Hi. Ba. Puna S/o Moti 1/3 Teli Sa. Deh. Khatedar   |

364361/05—3

| 1 | 2 | 3    | 4                    | 5      | 6  |
|---|---|------|----------------------|--------|--|
|   |   | 1644 | Aa.Cha.              | 0.0050 | Sh. Ganesh S/o Naru Mu. Nanibai bewa Naru Teli Natha S/o Dhanna, Puna S/o Moti 1/3 Hi. Ba. Uma S/o Hema Mu. Jamni bewa Hema 1/6 Lahrilal Gopu S/o Dalu Mu. Bhamri bewa Dalu 1/6 Teli Punamchand S/o Moti Lal 1/9 Sa. Deh. Khatedar           |
|   |   | 1645 | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0450 | Sh. Ganesh S/o Naru Mu. Nanibai bewa Naru 1/3 Vardi bewa Nathu, Heera Lal Mutvana Nathu, Narayani Lali Laxmi S/o Nathu 1/3 Hi. Ba. Puna S/o Moti 1/3 Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 1670 | Cha.I                | 0.0050 |  |
|   |   | 1671 | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0100 |  |
|   |   | 1648 | Cha.I, Ja.I          | 0.0250 | Sh. Punam Chand S/o Moti Lal Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 1668 | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0250 | Sh. Godhan Lal, Mangilal S/o Kalulal Mahajan Hi. Ba. Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 1669 | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.1050 | Sh. Uda S/o Hema Pu. Jamni bewa Hema 1/2 Lahri Lal Gopu S/o Dalu Mu. Bhamari bewa Dalu 1/2 Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 1672 | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0550 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar   |
|   |   | 1673 | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0450 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar   |
|   |   | 1691 | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0200 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar   |
|   |   | 1693 | Kha.I                | 0.1150 | Sh. Deva S/o Nathu Mu. Amba bewa shera roopa Mana Nai Sa. Deh Hi. Ba. Khatedar   |
|   |   | 1695 | Kha.I                | 0.0700 | Sh. Deva S/o Nathu Mu. Amba bewa Bhera roopa Mana Nai Sa. Deh Hi. Ba. Khatedar   |
|   |   | 1719 | Abadi                | 0.0050 | Bilanam Nakabil Kast   |
|   |   | 1720 | Ba.I, Bidh           | 0.0800 | Sh. Puna s/o Moti Lal Teli Sa. Deh Khatedar  |
|   |   | 1722 | Kha.II, Bidh         | 0.0650 | Sh. Amrit Lal S/o Heera Lal Soni Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 1723 | Bidh                 | 0.0500 | Sh. Gori Shanker S/o Bhanwar Lal 1/6 Mangi Lal S/o Ratan Lal 1/6 Madan Lal S/o Hamer Lal 1/9 Harishanker S/o Narvada Shanker 1/9 Mohan shanker Krishan Vallabh S/o Bhagwati Lal 1/9 Madhulal S/o Chaturbhuj 1/3 Brahmin Sa. Udaipur Khatedar |
|   |   | 1758 | Banjadh, Khadda      | 0.0400 | Sh. Bhanwar Lal Mutwana kana Moi Sa. Deh khatedar  |
|   |   | 1759 | Kha.II, Banjadh      | 0.0600 | Sh. Bhanwar Lal Mutwana kana Moi Sa. Deh khatedar  |
|   |   | 1772 | Kha.II               | 0.1150 | Sh. Tulcha Bhagga S/o Moti Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 1785 | Banjadh              | 0.1800 | Sh. Bhamru, Moda, Rama, Deva S/o Kalu 1/2 Kesi bai, Bhanwari S/o Chaturbhuj 1/2 Teli Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 1786 | Banjadh              | 0.2350 | Sh. Bhanwar Lal, Chatar Singh S/o Fatehlal Mahajan Sa. Deh khatedar  |
|   |   | 1790 | Banjadh              | 0.1300 | Sh. Nathulal, Heera Lal, S/o Devilal, Mu. Lachudi bewa Devilal, 1/2 Roopa S/o Khema 1/2 Moi Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 1800 | Kha.II, Banjadh      | 0.0600 | Sh. Moda, Deva S/o Kalu 1/2 Hi. Ba. Rama S/o kalu 1/2 Sa. Deh. Khatedar  |

| 1 | 2 | 3    | 4               | 5      | 6   |
|---|---|------|-----------------|--------|---|
|   |   | 1891 | Abadi           | 0.0500 | Sh. Kanehiya Lal S/o Sheshmal Jain (Mehta) Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 2281 | Banjadh, Khadda | 0.0700 | Sh. Vimalram S/o Kripan Gopal Vyas Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 2354 | Kha.I           | 0.0800 | Sh. Narayan, Kishan, Kesu, Magan, Kailash, Pyari, S/o Deva Mu. Devlibai bewa Balai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 2358 | Kha.I           | 0.0200 | Sh. Amba Lal S/o Kiahari Lal Khatik Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2361 | Kha.I           | 0.0800 | Sh. Narayan. Kishan, Kesu Magan Kailash, Pyari S/o Deva Mu. Devlibai Bewa Deva balai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 2367 | Ba.II           | 0.0300 | Sh. Alluddi Radhimohammad S/o Ishekkha  |
|   |   | 2371 | Bidh            | 0.0500 | 1/2 Hamid Kha, Gulshar Kha, Muni Kha, Shahid Kha S/o Sultan avam Mu. Aashiya Begam W/o Sultan Kha 1/4 Smt. Radhibai W/o Ganesh Lal Paliwal 1/4 Sa. Deh Khatedar |
|   |   | 2520 | Cha.I           | 0.0100 | Sh. Khemraj, Hariram, Savaram, S/o Duda Balai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2523 | Cha.I           | 0.0200 | Sh. Gangi Lal, Dhularam S/o Veera bai Hi. Ba. Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2545 | Kha.I           | 0.0450 | Sh. Kalu Lal, Dalichand S/o Kushal Mu. Manibai bewa kushal Khatik sa. Deh khatedar  |
|   |   | 2547 | Kha.I           | 0.0200 | Sh. Bhaja S/o Chatra balai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 2548 | Kha.I           | 0.0400 | Sh. Logar, Dalu, Lalu S/o Moti Balai Sa. Deh Khatedar   |
|   |   | 2558 | Cha.II          | 0.0450 | Sh. Narayan, Kishan, Kesu, Magan, Kailash, Pyari, S/o Deva Mu. Devlibai bewa Balai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 2559 | Cha.II          | 0.0250 | Smt. Babudi-Movni S/o Nathu (Mata Bhanwari Bai)   |
|   |   | 2562 | Kha.I           | 0.1100 | Sh. Logariya S/o Lala Balai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2575 | Kha.I           | 0.0450 | Sh. Gokal-Dola-Dhula-Goriya S/o Harlala Khatik Sa. Deh. Hi. Ba. Khatedar  |
|   |   | 5947 | Cha.I           | 0.1500 | Sh. Panna Lal S/o Chunni Lal Teli Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 5948 | Cha.I, Ja.I     | 0.1600 | Sh. Thani Lal S/o Chuni Lal Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 5949 | Kha.I           | 0.2050 | Sh. Panna Lal S/o Chunni Lal Teli Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 5959 | Cha.I           | 0.1500 | Sh. Panna Lal, Thani Lal S/o Chunni Teli Sa. Deh. Hi. Ba. Khatedar  |
|   |   | 5961 | Banjadh         | 0.0100 | Sh. Panna Lal S/o Chunni Lal Teli Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 5968 | Cha.II          | 0.1150 | Sh. Panna Lal, Thani Lal S/o Chunni Teli Sa. Deh. Hi. Ba. Khatedar  |
|   |   | 5970 | Cha.II          | 0.0450 | Sh. Narayan S/o Roda Teli Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 5971 | Cha.II          | 0.0550 | Sh. Narayan S/o Roda Teli Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 5973 | Kha.II, Banjadh | 0.1000 | Sh. Pana-Champa-Mega S/o Jalu 3/4 Bhanwar Lal Kesulal S/o Bhaga Mu. Nathi Bewa Bhaga 1/4 Nai Sa. Deh. Khatedar  |

| 1 | 2 | 3    | 4                 | 5      | 6  |
|---|---|------|-------------------|--------|--|
|   |   | 5975 | Kha.I             | 0.1000 | Sh. Pana-Champa-Mega S/o Jalu 3/4 Bhanwar Lal Kesulal S/o Bhaga Mu. Nathi Bewa Bhaga 1/4 Nai Sa. Deh. Khatedar |
|   |   | 5976 | Kha.I             | 0.1300 | Sh. Mangi Lal, Ganesh Lal, Chagan Lal, Shanker Lal S/o Bhera Nai Sa. Deh. Khatedar                             |
|   |   | 6079 | Cha.II, Ja.II     | 0.0550 | Sh. Jagdish Kumar S/o Kanehiyala Sunar Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6080 | Cha.II            | 0.0500 | Sh. Jagdish Kumar S/o Kanehiyala Sunar Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6250 | Cha.I, Ja.I, Bidh | 0.0750 | Sh. Chtariya S/o Bhuriya Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6252 | Kha.II            | 0.0900 | Sh. Mana, Mna-Varda S/o Kesa 1/2 Chatra S/o Bhura 1/2 Bheel Sa. Deh. Khatedar                                  |
|   |   | 6253 | Cha.I, Ja.I       | 0.0700 | Sh. Mana, Mna-Varda S/o Kesa 1/2 Chatra S/o Bhura 1/2 Bheel Sa. Deh. Khatedar                                  |
|   |   | 6254 | Kha.I             | 0.0700 | Sh. Chtariya S/o Bhuriya Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6256 | Cha.I, Khadda     | 0.1000 | Sh. Varda-Mana-Pana S/o Kesh Bheel Sa. Deh. Hi. Ba. Khatedar   |
|   |   | 6257 | Cha.I             | 0.0750 | Sh. Mana, Mna-Varda S/o Kesa 1/2 Chatra S/o Bhura 1/2 Bheel Sa. Deh. Khatedar                                  |
|   |   | 6264 | Kha.I             | 0.0700 | Sh. Prakash S/o Dalu Na. Ba. Va. Ki. Dadi Mu. Upali Bewa Kana Bheel Sa. Deh Khatedar                           |
|   |   | 6266 | Cha.I             | 0.0550 | Sh. Roopa, Gheesa S/o Kalu Na. Ba. Va. Vi. AG Bewa Kalu 1/2 Keting S/o Jeeva 1/2 Bheel Sa. Deh. Khatedar       |
|   |   | 6267 | Makan             | 0.0500 |  |
|   |   | 6269 | Cha.I, Bidh       | 0.0950 |  |
|   |   | 6270 | Cha.I             | 0.0900 |  |
|   |   | 6418 | Kha.I, Bidh       | 0.0800 |  |
|   |   | 6425 | Ba.I, Banjadh     | 0.0550 |  |
|   |   | 6426 | Ba.I, Banjadh     | 0.0450 |  |
|   |   | 6428 | Bidh              | 0.0300 |  |
|   |   | 6419 | Kha.I             | 0.1350 | Sh. Khamana S/o Uda Bheel Sa. Deh khatedar   |
|   |   | 6420 | Kha.I             | 0.0450 | Sh. Khamana S/o Uda Bheel Sa. Deh khatedar   |
|   |   | 651B | Ba.I, Banjadh     | 0.0500 | Sh. Khamana S/o Uda 18/19 Dhalaram S/o Deva 1/19 Bheel Sa. Godan Th. Girwa Khatedar                            |
|   |   | 6519 | Ba.I, Banjadh     | 0.0250 | Sh. Khamana S/o Uda Bheel Sa. Deh khatedar   |
|   |   | 6521 | Ba.I, Banjadh     | 0.0350 | Sh. Khamana S/o Uda Bheel Sa. Deh khatedar   |
|   |   | 6524 | Ba.I, Banjadh     | 0.0800 | Sh. Ambuda, Kalu S/o Govind Mu. Chagni bewa Govind Bheel Sa. Deh. Khatedar                                     |
|   |   | 6525 | Kha.II, Banjadh   | 0.0800 | Sh. Ambuda, Kalu S/o Govind Mu. Chagni bewa Govind Bheel Sa. Deh. Khatedar                                     |
|   |   | 6534 | Bidh              | 0.1450 | Sh. Khamana S/o Uda Bheel Sa. Deh khatedar   |
|   |   | 6540 | Rasta             | 0.0400 | Sh. Roopa, Meethiya, Teka, Dhama Laxmi Nayani S/o Deva Bheel Sa. Deh. Khatedar                                 |

| 1 | 2 | 3    | 4               | 5      | 6   |
|---|---|------|-----------------|--------|---|
|   |   | 6542 | Kha.II          | 0.0250 | Sh. Kana S/o Bhera Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6543 | Kha.II          | 0.0300 | Sh. Moda, S/o Bhera Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6544 | Kha.II          | 0.0250 | Sh. Kana S/o Bhera Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6545 | Kha.II          | 0.0250 | Sh. Kana S/o Bhera Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6551 | Abadi           | 0.0100 | Sh. Kana, Moda S/o Bhera, Jagganath S/o Pura 1/4 Gheesu S/o Panna 1/4 Sohan S/o Ganesh 1/8 Dola, Chaina S/o Pratha 1/8 Devlal s/o Mana Bheel 1/4 Ni. Malasi Kala khatedar |
|   |   | 6657 | Ba.I, Banjadh   | 0.0550 | Sh. Narayan Lal, Heera Lal, Meetha Lal, Udai Lal, Devli, Roopli Durga S/o Kalu Mu. Chenki Bewa Kalu Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6656 | Kha.II          | 0.0150 | Sh. Logariya, Lal, Pratha, Man S/o Khamana Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6659 | Kha.I           | 0.0500 |   |
|   |   | 6660 | Kha.I           | 0.0550 |   |
|   |   | 6661 | Kha.I           | 0.0250 | Sh. Kushal S/o Pema Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6662 | Kha.I, Banjadh  | 0.0250 | Sh. Roda S/o Khema Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6666 | Cha.I, Ja.I     | 0.1000 | Sh. Nathu S/o Karma Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6667 | Cha.I, Ja.I     | 0.0350 | Sh. Nathu S/o Karma Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 1560 | Kha.II, Banjadh | 0.0800 | Sh. Jagdish S/o Rooplal Jasoda W/o Jagdish Nai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 2296 | Aa.Cha.         | 0.1800 | Bilanam Nakabil Kast  |
|   |   | 168  | Kha.II          | 0.0025 | Sh. Moti Pyara S/o Haniram Balai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 174  | Cha.II          | 0.0100 |   |
|   |   | 175  | Aa.Cha.         | 0.0100 |   |
|   |   | 877  | Cha.I           | 0.0250 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 878  | Cha.I           | 0.0350 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 879  | Ja.I,           | 0.0350 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 880  | Kha.I           | 0.1000 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 881  | Banjadh         | 0.0600 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 884  | Banjadh         | 0.0900 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 885  | Ja.I            | 0.0450 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 886  | Banjadh         | 0.1800 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 887  | Kha.I           | 0.0400 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 888  | Cha.II          | 0.0925 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 889  | Banjadh         | 0.0100 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 890  | Cha.II          | 0.0150 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 892  | Cha.I           | 0.0025 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |
|   |   | 1694 | Kha.II          | 0.0006 | Sh. Gulab Shyam Ji sthan Deh. Khatedar  |

| 1 | 2 | 3         | 4                    | 5      | 6   |
|---|---|-----------|----------------------|--------|---|
|   |   | 1512      | Banjadh              | 0.0050 | Sh. Harishanker S/o Bherulal Makvan Rajput Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 5979      | Kha.II               | 0.0450 | Sh. Mangi Lal, Rodi Lal Heera Lal S/o Deva Mu. Nojibai bewa Deva 1/2 Nai, Mohanlal S/o Kana 1/2 Nai Sa. Deh. Khatedar             |
|   |   | 1760      | Banjadh              | 0.0006 | Sh. Bhanwarlal, Mutwana Kana Moi Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 1893      | Abadi                | 0.0850 | Smt. Premalata W/o Kanehilal Jain (Mehta) Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2291      | Dee.Pee.             | 0.0650 | Sh. Ramakant, Kupangopal S/o Neelkanth 1/3 Hi. Ba. Laxmikant S/o Magan Lal 1/3 Vimalram S/o Kupangopal Vyas 1/3 Sa. Deh. Khatedar |
|   |   | 2356      | Kha.I                | 0.0800 | Sh. Harivallabh, Surya Prakash S/o Mohan Lal Brahmin Sa. Deh. Hi. Ba. Khatedar  |
|   |   | 2452      | Cha.I, ja.I          | 0.0025 | Sh. Ram Lal, Daulatram S/o Devi Lal 1/2 Kishore S/o Bhage 1/2 Luhar Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2518      | Cha.I                | 0.0025 | Sh. Khemraj, Hariram, Savaram, S/o Duda Balai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2519      | Cha.I                | 0.0050 | Sh. Khemraj, Hariram, Savaram, S/o Duda Balai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 2546      | Kha.I                | 0.0250 | Shri Dhulchand, Lakshan, Savlal, Nathulal S/o Hariram Mu. Mani Beva Hariram Khatik Sa. Deh. Khatedar                              |
|   |   | 2569      | Kha.II               | 0.0400 | Shri Deva S/o Lala balai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6814/2547 | Abadi, Kha.II        | 0.0100 | Sh. Logriya S/o Lala Balai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6285/1    | Banjadh              | 0.0100 | Smt. Bibla W/o Badri Lal Meena Sa. Godnam Vilas Udaipur Bakudi W/o Deva Bheel Sa. Deh Koviya Th. Gogunda Khatedar                 |
|   |   | 5945      | Cha.I                | 0.0250 | Sh. Panna Lal, Dhani Lal S/o Chuni Lal Teli Sa. Deh. Hi. Ba. Khatedar   |
|   |   | 5966      | Cha.I, Ja.I          | 0.0050 | Sh. Panna Lal, Dhani Lal S/o Chuni Lal Teli Sa. Deh. Hi. Ba. Khatedar   |
|   |   | 5962      | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0200 | Sh. Thani Lal S/o Chuni Lal Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 5967      | Kha.II               | 0.0006 | Sh. Thani Lal S/o Chuni Lal Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6442      | Kha.II               | 0.0150 | Sh. Kana S/o Bhera Teli Sa. Deh.  |
|   |   | 6443      | Kha.II               | 0.0025 | Sh. Kana S/o Bhera Teli Sa. Deh.  |
|   |   | 5965      | Cha.I                | 0.0150 | Sh. Narayan S/o Roda Teli Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 5964      | Cha.I                | 0.0150 | Sh. Premlal S/o Keshu Lal Magnibai Bewa, Keshulal Teli Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 5980      | Kha.I                | 0.0150 | Sh. Mangi Lal, Ganesh Lal, Chagan Lal, Shanker Lal S/o Bhera Nai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 5978      | Banjadh              | 0.0150 | Sh. Mangi Lal, Ganesh Lal, Chagan Lal, Shanker Lal S/o Bhera Nai Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6068      | Kha.II               | 0.0150 | Sh. Ram Singh, Keshar Singh Mahendra Singh S/o Kishan Singh Rajput Sa. Deh. Khatedar  |

| 1 | 2 | 3       | 4                     | 5      | 6  |
|---|---|---------|-----------------------|--------|--|
|   |   | 6069    | Kha.II, Banjadh       | 0.0900 | Sh. Ram Singh, Keshar Singh Mahendra Singh S/o Kishan Singh Rajput Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6073    | Kha.II                | 0.0025 | Sh. Bhera S/o Bharta Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6075    | Kha.II                | 0.1500 | Sh. Bhera S/o Bharta Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6076    | Kha.I, Banjadh        | 0.1000 | Sh. Mangi Lal, Rodi Lal HeeraLal S/o Deva Mu. Nojibai bewa Deva 1/2 Nai, Mohanlal S/o Kana 1/2 Nai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6077    | Kha. Banjadh          | 0.1100 | Sh. Mangi Lal, Rodi Lal HeeraLal S/o Deva Mu. Nojibai bewa Deva 1/2 Nai, Mohanlal S/o Kana 1/2 Nai Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6263    | Cha.I                 | 0.0200 | Mu. Jamni bewa Moda Kesar-Udki Nojki Timudi S/o Moda Bheel Sa. Deh khatedar  |
|   |   | 6258    | Cha.I, Ja.I           | 0.0450 | Sh. Chatariya S/o Bhuriya Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6421    | Kha.I                 | 0.0200 | Sh. Khmana S/o Uda Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6422    | Kha.I                 | 0.0350 | Sh. Khmana S/o Uda Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6533    | Rodi                  | 0.0050 | Sh. Khmana S/o Uda Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6522    | Kha.I, Banjadh        | 0.0006 | Sh. Khmana S/o Uda Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6427    | Ba.II,                | 0.0100 | Sh. Roopa, Gheesa S/o Kalu Na. Ba. Va. Vi. AG Bewa Kalu 1/2 Kering S/o Jeeva 1/2 Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6287/1  | Abadi                 | 0.0550 | Smt. Navli W/o Heemaram Bheel Sa. Auntri Th. Kumbhalgarh, Smt. Bibla W/o Badri Lal Meena Sa. Goverdhan Vilas Udaipur khatedar  |
|   |   | 6288/1  | Abadi                 | 0.0650 | Smt. Navli W/o Heemaram Bheel Sa. Auntri Th. Kumbhalgarh, Smt. Bibla W/o Badri Lal Meena Sa. Goverdhan Vilas Udaipur khatedar  |
|   |   | 6288 Mi | Kha., Banjadh, Khadda | 0.0100 | Sh. Ganesh S/o Bhaga Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6523    | Kha.II                | 0.0100 | Sh. Ambuda, Kalu S/o Govind Mu. Chagni bewa Govind Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6535    | Ba.I                  | 0.0050 | Sh. Roopa Mithiya Teka Dharma Laxmi Narayani S/o Deva Bheel Sa. Dehl Khatedar  |
|   |   | 6517    | Ba.I, Banjadh         | 0.0100 | Sh. Roopa Mithiya Teka Dharma Laxmi Narayani S/o Deva Bheel Sa. Dehl Khatedar  |
|   |   | 6541    | Abadi, Kha.II         | 0.0200 | Sh. Moda S/o Bhera 1/12 Jagganath S/o Pura 1/24 Vakta Ram S/o Daula 1/8 Dheemu S/o Panna 1/4 Sohan S/o Ganesh 1/8 Daula, Chena S/o Pratha 1/8 Devilal, s/o Pana Bheel 1/4 Ni. Malasi Kala Khatedar |
|   |   | 6647    | Kah.II, Banjadh       | 0.0200 | Sh. Logriya Lal, Prathat Mana S/o Khamana Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6654    | Ba.I, Banjadh         | 0.0100 | Sh. Logriya Lal, Prathat Mana S/o Khamana Bheel Sa. Deh. Khatedar  |
|   |   | 6655    | Ba.I, Banjadh         | 0.0050 | Sh. Logriya Lal, Prathat Mana S/o Khamana Bheel Sa. Deh. Khatedar  |

| 1 | 2 | 3         | 4                    | 5      | 6   |
|---|---|-----------|----------------------|--------|---|
|   |   | 6815/6658 | Kha., Banjadh        | 0.0300 | Sh. Narayanlal, Heera Lal, Meetha Lal, Udai Lal, Devli Ropli Durga S/o Kalu Mu. Chenki bewa Kalu Bheel Sa. Deh Khatedar |
|   |   | 6679      | Cha.I, Ja.I          | 0.0450 | Sh. Kushal S/o Pema Bheel Sa. Deh. Khatedar   |
|   |   | 6663      | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0500 | Sh. Ganesh S/o Deva Bheel Sa. Deh Khatedar  |
|   |   | 6664      | Cha.I, ja.I          | 0.0150 | Sh. Daula S/o Partha Bheel Sa. Deh Khatedar   |
|   |   | 6665      | Cha.I, Ja.I, Banjadh | 0.0100 | Sh. Chena S/o Partha Bheel Sa. Deh Khatedar   |
|   |   | 2537      | Rasta                | 0.0050 | Bilanam Nakabil Kast  |
|   |   | 6539      | Rasta                | 0.0100 | Bilanam Nakabil Kast  |
|   |   | 2297 Mi   | Magari               | 0.1300 | Bilanam Nakabil Kast  |
|   |   | 270       | Rasta                | 0.0300 | Bilanam Nakabil Kast  |
|   |   | 2292      | Chattan              | 0.0450 | Bilanam Nakabil Kast  |
|   |   | 2297/1    | Abadi                | 0.0700 | Dur Sanchar Vibhag, Gogunda   |
|   |   | 2297/2    | Magari               | 0.0900 | Public Health Engineering Department, Gogunda   |
|   |   | 271       | Road                 | 0.2300 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 2293      | Road                 | 0.2650 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 2568      | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6864/2347 | Road                 | 0.0050 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6865/2350 | Road                 | 0.0050 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6866/2351 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6867/2353 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6868/2353 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6869/2362 | Road                 | 0.0150 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6854/281  | Road                 | 0.0025 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6858/2294 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6859/2296 | Road                 | 0.0500 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6860/2297 | Road                 | 0.1800 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6874/2530 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6875/2531 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6878/2570 | Road                 | 0.0150 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6879/2571 | Road                 | 0.0050 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6861/2342 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |
|   |   | 6862/2344 | Road                 | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building  |

| 1 | 2          | 3              | 4                 | 5      | 6  |
|---|------------|----------------|-------------------|--------|--|
|   |            | 6863/2346      | Road              | 0.0150 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 6852/178       | Road              | 0.0150 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 6883/6722/2971 | Road              | 0.0500 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 6870/2523      | Road              | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 6871/2524      | Road              | 0.0200 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 6872/2528      | Road              | 0.0250 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 6873/2529      | Road              | 0.0050 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 6730/2453      | Road              | 0.0100 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 212            | Road              | 0.0700 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 222            | Road              | 0.0250 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 223            | Road              | 0.0200 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 226            | Road              | 0.0600 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 272            | Road              | 0.1150 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 273            | Road              | 0.0400 | Public Works Departement Road & Building   |
|   |            | 437            | Rasta             | 0.1150 | Bilanam Nakabil Kast   |
|   |            | 758            | Rasta             | 0.0300 | Bilanam Nakabil Kast   |
|   |            | 913            | Rasta             | 0.0300 | Bilanam Nakabil Kast   |
|   |            | 2453           | Rasta             | 0.0550 | Bilanam Nakabil Kast   |
| 4 | Obarakhurd | 3549/3281      | Awasiy, Vanijiyak | 0.0300 | Sh. Babu Lal, Durga Shanker, Ashok Kumar S/o Amrit Lal Brahmin   |
| 5 | Jhadoli    | 1995           | Kha.I             | 0.0450 | Sh. Premdan S/o Shambhudan 1/2 Charan Raja Gala Kalu S/o Khema 1/2   |
| 6 | Semtal     | 3646/1380      | Banjadh           | 0.0150 | Sh. Bansi Lal, Ghasi ram, Ganesh Lal, Nana Lal S/o Miyashanker Mu. Dhakhubai Bewa Miyashanker 1/2 Hi. Ba. Brahmin Sa. Deh. Khatedar Roshn Lal, Kyalilal, Chatar Singh Bhagwati Lal Kamla bai Puthya bai S/o Fateh Lal Mu. Bhuri bai bewa Fateh Lal Mahajan 1/2 Sa. Gogunda             |
| 7 | Khakhadi   | 122            | Nali              | 0.0100 | Bilanam Gair Kabil Kast  |
|   |            | 184            | Abadi             | 0.1050 | Bilanam Gair Kabil Kast  |
|   |            | 721            | Bidh              | 0.0500 | Mahfuj Chamot Vikas Panchayat Majavadi   |
|   |            | 255            | Bidh              | 0.0006 | Sh. Roopa-Dola-Teela S/o Vagta Mu. Bewa Vagta 1/4 Lalu Gamna Bhanwr S/o Gala Mu. Galki Bewa Gala 1/4 Hi. Ba. Bhekhla Varda S/o Noja 1/4 Hi. Ba. Na. Ba. Va. Vi. Mu. Tulsi Bewa Noja Bheel Sa. Deh. Khatedar Mu. Vi. Ka. (Hissa Lalu, Gamna, Bhanwar S/o Gala Dola Teela S/o Vagta par) |

| 1 | 2 | 3   | 4    | 5      | 6  |
|---|---|-----|------|--------|--|
|   |   | 383 | Bidh | 0.0100 | Sh. Khemraj S/o Kishore Mu. Bhvanari<br>bewa kalu 1/2 Sa. Obrakhurd Lahu, S/o<br>Ganga Ram 1/2 Brahmin Sa. Joshiyo Ki<br>Bhagal mu. Jaswantgarh khatedar |

[F. No. NHA/11014/Tech./EW-II/LA/Udaipur/2005/LA-89]

PRABHAKAR, Dy. Secy.